

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]	दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 2018/वैशाख 18, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 515
No. 101]	DELHI, TUESDAY, MAY 8, 2018/VAISAKHA 18, 1940	[N.C.T.D. No. 515

भाग—IV
PART—IV

शहरी विकास विभाग
(कार्यालय निदेशक स्थानीय निकाय)
अधिसूचना

दिल्ली, 7 मई, 2018

सं.फा. 4(30)/आरआर/एलबी/2018/सीडी-000250424/5101-09.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 480 की उपधारा (2) तथा धारा 484क की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 27 मार्च, 1995 की अधिसूचना सं० 13(103)/99/यूडी के अनुसार अधिसूचित सहायक निदेशक, शिक्षा (शारीरिक) के पद से संबंधित भर्ती विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना सं० एसओ 3159 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात् उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगमों में **सहायक निदेशक, शिक्षा (शारीरिक)** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (1) इन विनियमों को **सहायक निदेशक, शिक्षा (शारीरिक)** भर्ती विनियम, 2018 कहा जाये।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, उसके साथ संलग्न इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :-** कोई भी व्यक्ति

- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
- (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,
- वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति :-** जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :-** इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक निदेशक, शिक्षा (शारीरिक)
2.	पदों की संख्या	:	12 (2018) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। (उत्तर दिल्ली नगर निगम-6 दक्षिण दिल्ली नगर निगम -4 पूर्व दिल्ली नगर निगम-2)
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन स्तर-11
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में उपाधि (ii) शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने का सात वर्ष का अनुभव अथवा दो वर्षीय प्रशासनिक अनुभव सहित युवा कल्याण कैम्प। वांछनीय : (i) शिक्षा में उपाधि (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट उपाधि अथवा समकक्ष

		<p>टीप-1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप-2. यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता: हाँ</p>
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	<p>75प्रतिशत पदोन्नति द्वारा</p> <p>25प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा</p>
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	<p>पदोन्नति: नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में स्कूल निरीक्षक (शारीरिक)।</p> <p>टीप-1: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p>“क” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयुक्त, उत्तर दिल्ली नगर निगम – सदस्य 2. आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम– सदस्य 3. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम– सदस्य <p>(उपरोक्त में से वरिष्ठतम आयुक्त अध्यक्ष होगा)</p> <p>“क” वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संबंधित निगम का अपर आयुक्त (स्थापना) – अध्यक्ष 2. संबंधित निगम का निदेशक (शिक्षा) – सदस्य 3. संबंधित निगम का निदेशक (कार्मिक) – सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पवन चोपड़ा, उप निदेशक,

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DIRECTOR OF LOCAL BODIES)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th May, 2018

No.F.4(30)/RR/LB/2018/CD-000250424/5101-09.—The following regulations, made by the Municipal Corporation of Delhi in exercise of the powers conferred by section 98 read with sub-section (2) of Section 480 and sub-

section (3) of section 484A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and in supersession of recruitment regulations relating to the post of Assistant Director of Education (Physical) notified vide No. F.13 (103)/99/UD dated, the 27th March, 1995 except as respects things done or omitted to be done such before supersession, after consultation with Union Public Service Commission and approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification Number S.O. 3159 dated the 19th October, 1966 the following recruitment regulations for regulating the method of recruitment to the post of **Assistant Director of Education (Physical)** in North, South and East Delhi Municipal Corporations, are hereby published for information; namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called **Assistant Director of Education (Physical) Recruitment Regulations, 2018**.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.** - The number of the said posts, their classification and Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.** - Method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** – Where the Government of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.** – Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Level in the Pay Matrix.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASSISTANT DIRECTOR OF EDUCATION (PHYSICAL).	12* (2018) * Subject to variation depend on workload. (North DMC-6 South DMC-4 East DMC-2).	Category 'A'.	Pay Level - 11.	Selection.	Not exceeding 40 years. Note 1 : Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-	Essential : (i) Master degree in Physical Education from a recognized University. or Master Degree of a recognized University and Degree in Physical Education from a recognized University ; (ii) Seven years experience in imparting training in

					<p>limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island or Lakshadweep.</p>	<p>physical education in educational institutions or youth welfare camps with two years administrative experience.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Degree in Education;</p> <p>(ii) Doctorate degree of a recognized University or equivalent.</p> <p>Note : 1 Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note : 2 The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment By promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>AGE : NO</p> <p>EDUCATIONAL QUALIFICATION: YES.</p>	One Year for Direct recruits.	75% by promotion, 25% by direct recruitment.	<p>Promotion : School Inspector (Physical) in Level-10 in the Pay Matrix with five years' Service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p>	<p>Category 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissioner, North DMC - Member 2. Commissioner, South DMC 	Consultation with the Union Public Service Commission Necessary while making direct recruitment.

			<p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service.</p>	<p>- Member</p> <p>3. Commissioner, East DMC</p> <p>- Member</p> <p>(Senior most Commissioner out of above will be the Chairman)</p> <p>Category 'A' Department Confirmation Committee consisting of :-</p> <p>1. Additional Commissioner (Establishment) of respective Corporations - Chairperson</p> <p>2. Director (Education) of respective Corporation - Member</p> <p>3. Director (Personnel) of respective Corporation - Member</p>	
--	--	--	---	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN CHOPRA, Dy. Director